

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन ने आधिकारिक तौर पर मार्च माह को, ब्लैक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और सशक्तिकरण माह के तौर पर मान्यता दी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (10 मार्च, 2021) – 3 मार्च को, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने आधिकारिक तौर पर, ब्लैक कम्युनिटी में मानसिक स्वास्थ्य संकट को रोकने के लिए, मार्च माह को ब्लैक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और सशक्तिकरण माह (Black Mental Health Awareness and Empowerment Month) के तौर पर मान्यता दी थी।

इस महत्वपूर्ण माह के हिस्से के तौर पर, सिटी की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई, ब्लैक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और सशक्तिकरण सेशन की सीरीज की मेजबानी करेगी।

हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्ति, निम्नलिखित [ऑनलाइन सेशनों के लिए यहां \(online sessions here\)](#) रजिस्टर कर सकते हैं।

- यूथ मेंटल हेल्थ फोरम (Youth Mental Health Forum): 18 मार्च, शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक
- सीनियर्स मेंटल हेल्थ फोरम (Seniors Mental Health Forum): 18 मार्च, शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक
- वूमैन्स मेंटल हेल्थ फोरम (Women's Mental Health Forum): 25 मार्च, शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक
- मेन्स मेंटल हेल्थ फोरम (Men's Mental Health Forum): 25 मार्च, शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक
- LGBTQ+ मेंटल हेल्थ फोरम (LGBTQ+ Mental Health Forum): 26 मार्च, शाम 6 बजे से 7 बजे तक
- एंटी-ब्लैक जातिवाद संबंधी जानकारी सेशन (Anti-Black Racism Education Session): 31 मार्च, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

एंटी-ब्लैक जातिवाद पर, ब्रैम्पटन की पहलकदमियों के बारे में और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई के बारे में, brampton.ca/antiblackracism पर अधिक जानें।

पील (Peel) में मानसिक स्वास्थ्य कम्युनिटी संसाधनों की सूची के लिए, [यहां क्लिक करें \(click here\)](#)।

ब्रैम्पटन की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई के बारे में

10 जून, 2020 को, सिटी काउंसिल (City Council) ने ब्लैक अफ्रीकी और कैरेबियन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई को मंजूरी दी थी। सीनियर एडवाइजर, गविनेथ चैपमैन (Gwyneth Chapman) के नेतृत्व में, यह इकाई ब्रैम्पटन में प्रणालीगत जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कार्य योजना भी विकसित और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ब्रैम्पटन के लोकल कम्युनिटी स्टेकहोल्डर्स द्वारा निर्देशित, इस इकाई का काम, ब्रैम्पटन के ब्लैक कम्युनिटी की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने पर केंद्रित होगा।

सिटी द्वारा एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई विकसित करने के बारे में अधिक जानने के लिए या इसमें शामिल होने के लिए अपनी रुचि प्रकट करने के लिए, कृपया सिटी को economicantiblackracism@brampton.ca पर संपर्क करें।

हवाले

“कैनेडा में और हमारे ब्लैक हिस्ट्री मंथ के कार्यक्रमों में, आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद पर ध्यान देने के लिए, ब्रैम्पटन की पहली वर्चुअल कान्फरेंस के बाद, हमें मार्च माह को, ब्लैक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और सशक्तिकरण माह के तौर पर मान्यता देने पर और ब्लैक कम्युनिटी की हिमायत के लिए, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फोरमों की इस सीरीज की मेजबानी करने पर गर्व है। ब्लैक अफ्रीकी और कैरेबियन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई, ब्रैम्पटन में प्रणालीगत एंटी-ब्लैक जातिवाद को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्लैक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और सशक्तिकरण कम्युनिटी सेशन, कई प्रकार के स्टैकहोल्डर्स को इकट्ठा लाएंगे, जिनका उद्देश्य, ब्लैक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी संकट से प्रभावित लोगों को सशक्त करना और शिक्षा तथा बेहतर मैनेजमेंट पद्धतियाँ विकसित करने के द्वारा, कार्यस्थल और समाज में जाति संबंधी पक्षपात का मुकाबला करना है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यह माह, ब्लैक मानसिक स्वास्थ्य और तंदरुस्ती पर केंद्रित स्पष्ट और सूचनात्मक वार्तालाप का शानदार अवसर पैदा करेगा। हम सभी कैनेडा निवासियों और ब्रैम्पटन के निवासियों को, समाधान का हिस्सा बनने का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपेक्षा करते हुए, एंटी-ब्लैक जातिवाद के हानिकारक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में जानेंगे। सिटी की आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई, इस माह होने वाले सेशन के द्वारा, निवासियों के साथ जुड़ने के लिए उत्साहित है।”

- गविनेथ चैपमैन (Gwyneth Chapman), सीनियर एडवाइजर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एंटी-ब्लैक रेसिज़्म, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

गुरविंदर सिंह (Gurvinder Singh)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

